CHUNILAL GANDHI VIDYABHAVAN
SURAT.

Manuscripts Library
S.D.P.B.
Coll. No. 366

Title Baluka balidāna

CHUNILAL GANDHI VIDYABHAVAN, SURAT

Shastri Dinmanishankar Pustak-Bhandara

No.: 366. Subject: Tantric Rit.

Title: Batūka balidāna

Author: — Scribe: —

Date of the work: — Date of the Ms.: —

Place of the work: — Place of the Ms.: —

Size: 4·8" by 36" Extent: 2 foll.

Language: Sanskrit. Script: Devanāgarī

Remarks:

॥श्रीगणेशाय नमः॥ बटुकबलिदानं त्रि
कोणवृत्तचतुरस्रं मंडलं लेख्यं॥ वं बटुक
मंडलाय नमः॥ इति मंडलं संपूज्य॥ तस्यो
परि सदीपं बलिं निधाय॥ ॐ बटुकाय न
मः॥ इत्यावाह्य मुद्राः प्रदर्श्य पंचोपचारैः
संपूज्य बलिं दद्यात्॥ ध्यानं माद शुद्धस्फ
टिकसंकाशं खर्वदंडधरं प्रभुं॥ त्रिनेत्रं
विघ्नसंघानां नाशनं प्रमोदितमिति॥

ध्यात्वा सदीपं बलिं गृहीत्वा वीरपात्रामृ
तेन एह्येहि देवीपुत्र बटुकनाथ कपिल
जटाभार भासुर त्रिनेत्र ज्वालामुख स
र्वविघ्नान् नाशय नाशय सर्वोपचार
सहितं बलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा॥ इत्यने
न वामांगुष्ठनामिकाभ्यां बटुकस्य ब
लिं दद्यात्॥ संतुष्टो बटुकः प्रदीव॥ ब
लिहरणकाले न हस्यावश्यकं चात्र

तठकंतयावलिंदरेत्रावलिनानेनसं
तुष्टोवटूकसर्वसिधिदाः॥शांतिकरो
तुमेनित्यंभूतवेतालसेविताः॥इति
वटूकवलिदानंसमाप्तिः॥ दवोसहानाथ।
वंदिमोहमर्कटदीमोहमर्कटमर्कट
श्री॥